



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 14 मार्च, 2023

फाल्गुन 23, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 07/91-2023

लखनऊ, 14 मार्च, 2023

अधिसूचना

प0आ0-84

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/1-14-2010-33(100)-2010 टी0सी0-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(एक) क्रम-संख्या 29 पर उल्लिखित वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ (पूर्वोक्त अधिसूचना में अधिसूचना संख्या 375/91-2013, दिनांक 27 नवम्बर, 2013 द्वारा जोड़ी गयी) निकाल दी जायेंगी; और

(दो) क्रम-संख्या 53 पर परिवहन विभाग से सम्बन्धित सेवा संख्या (3) और (17) से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ (पूर्वोक्त अधिसूचना में अधिसूचना संख्या 337/91-2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा जोड़ी गयी) निकाल दी जायेंगी।

आज्ञा से,
कै० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 07/XCI-2023, dated March 14, 2023 :

No. 07/XCI-2023

Dated Lucknow, March 14, 2023

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following amendment in Government notification no. 2198/I-14-2010-33(100)-2010 T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time.

AMENDMENT

In the Schedule to the aforesaid notification,—

(i) the entries mentioned at serial number 29 relating to Commercial Tax Department (added to the aforesaid notification *vide* notification no. 375/91-2013, dated November 27, 2013) shall be *omitted*; and

(ii) the entries relating to service number (3) and (17) at serial number 53 relating to Transport Department (added to the aforesaid notification *vide* notification no. 337/91-2018, dated September 28, 2018) shall be *omitted*.

By order,
K. RAVINDER NAIK,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1268 राजपत्र-2023-(2124)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 सा० लोक सेवा प्रबन्धन-2023-(2125)-500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।